

# Mal

## Chapter 4

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

עֲשֵׂה	וְכֹל-	זָרִים	כָּל-	יְהוּוּ	כַּתְּנוּר	בָּעַר	בָּא	הַיּוֹם	הִנֵּה	כִּי-	1	
करनेवाले	और-सब-	अहंकारी	सब-	और-होंगे	जैसे-भट्टी	जलता-हुआ	आता-है	दिन	देखो	क्योंकि-		
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2086</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8574</a>		<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2009</a>			
יַעֲזֹב	לֹא-	אֲשֶׁר	צְבָאוֹת	יְהוָה	אָמַר	הָבֵא	הַיּוֹם	אֵתֶם	וְלַהֵט	קָשׁ	רָשָׁעָה	
छोड़ेगा	नहीं-	जो	सेनाओं-का	यहोवा	कहता-है	आनेवाला	दिन	उन्हें	और-जला-देगा	पूआली	दुष्टता	
	<a href="#">H3808</a>			<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3857</a>	<a href="#">H7179</a>	<a href="#">H7564</a>	

וְעָנָה:   
और-नहीं-डाली   
[H6057](#)

שָׁשׁ   
जड़   
[H8328](#)

לָקַח   
को-उन्हें   
[H1992](#)

“न्याय का समय आ रहा है। यह गर्म भट्टी —सा होगा। वे सभी गर्वीलें व्यक्ति दण्डित होंगे। वे सभी पापी लोग सूखी घास की तरह जलेंगे। उस समय वे आग में ऐसी जलती झाड़ी—से होंगे जिसकी कोई शाखा याजड़ बची नहीं रहेगी।” सर्वशक्तिमान यहोवा ने यह सब कहा।

וַיִּצְאֶתְם	בְּכַנְפֵיהֶם	וּמְרִפָּא	צְדָקָה	שֶׁמֶשׁ	שְׁמִי	יִרְאִי	לְכֶם	וּזְרָקָה	2
और-तुम-निकलोगे	में-उसके-पंखों	और-चंगाई	धार्मिकता-का	सूर्य	मेरे-नाम-से	डरनेवालों	के-लिए-तुम	और-उदय-होगा	
<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H3671</a>	<a href="#">H4832</a>	<a href="#">H6666</a>	<a href="#">H8121</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H3373</a>		<a href="#">H2224</a>	

מִרְבָּק:   
थान-के   
[H4770](#)

כַּעֲנָנִי   
जैसे-बछड़े   
[H5695](#)

וּפְשָׁתֶם   
और-कूदोगे

“किन्तु, मेरे भक्तों, तुम पर अच्छाई उगते सूरज के समान चमकेगी और यह सूरज की किरणों की तरह स्वास्थ्यवर्धक शक्ति देगी। तुम ऐसे ही स्वतन्त्र और प्रसन्न होओगे जैसे अपने बाड़े से स्वतन्त्र हुए बछड़े।

אֲנִי	אֲשֶׁר	בַּיּוֹם	רְגִלְיֶיכֶם	כַּפּוֹת	תַּחַת	אֶפְרַר	יְהוּוּ	כִּי-	רָשָׁעִים	וְעִסְתֶּם	3
मैं	जिस	में-दिन	तुम्हारे-पाँवों-के	तलवों	नीचे	राख	वे-होंगे	क्योंकि-	दुष्टों-को	और-तुम-रौंदोगे	
<a href="#">H0589</a>		<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7272</a>	<a href="#">H3709</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H0665</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H7563</a>	<a href="#">H6072</a>	

ב [सेलह]   
צְבָאוֹת:   
सेनाओं-का   
[H3068](#)

יְהוָה   
यहोवा   
[H3068](#)

אָמַר   
कहता-है   
[H0559](#)

עֲשֵׂה   
बनाता-हूँ

तब तुम उन बुरे लोगों को कुचलोगे, वे तुम्हारे पैरों के नीचे की राख —से होंगे। मैं न्याय के समय इन घटनाओं को घटित कराऊँगा।” सर्वशक्तिमान यहोवा ने यह सब कहा!

יִשְׂרָאֵל	כָּל-	עַל-	בְּחֹרֵב	אוֹתוֹ	צִוִּיתִי	אֲשֶׁר	עֲבָדִי	מוֹשֶׁה	תּוֹרַת	זְכוֹרִי	4
इस्राएल-के-लिए	सब-	पर-	में-होरेब	उसे	मैंने-आज्ञा-दी	जिस	मेरे-दास-की	मूसा-की	व्यवस्था	याद-करो	
<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H2722</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6680</a>		<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H8451</a>	<a href="#">H2142</a>	

וּמִשְׁפָּטִים:   
और-न्याय   
[H4941](#)

חֻקִּים   
विधियाँ   
[H2706](#)

“मूसा की व्यवस्था को याद करो और पालन करो। मूसा मेरा सेवक था। मैंने होरेब (सिनाइ) पर्वत पर उन विधियों और नियमों को उसे दिया। वे नियम इस्राएल के सभी लोगों के लिये हैं।

5  
 הַגְּדוּל יְהוָה יוֹם בּוֹא לְפָנַי הַנְּבִיא אֵלֶיךָ אֵת לְכֶם שְׁלַח אֲנֹכִי הִנֵּה אֲנִי  
 बड़े यहोवा-के दिन आने से-पहले नबी एलियाह को-तुम भेजनेवाला-हूँ मैं देखो  
[H3068](#) [H3117](#) [H0935](#) [H6440](#) [H5030](#) [H0452](#) [H0853](#) [H7971](#) [H0595](#) [H2009](#)

וְהִנֵּוּרָא:  
 और-भयावने  
[H3372](#)

यहोवा ने कहा, “देखो, मैं नबी एलियाह को तुम्हारे पास भेजूँगा। वह यहोवा के यहाँ से उस महान और भयंकर न्याय के समय से पहले आएगा।

6  
 אֲנִי אֲבֹתָם פֶּן- אֶל- בְּנֵים וְלֵב בְּנֵים עַל- אֲבוֹתַי לֵב- וְהִשִּׁיב אֲנִי  
 मैं-आऊँ कहीं- उनके-पितरों की-ओर- पुत्रों-का और-हृदय पुत्रों की-ओर- पितरों-का हृदय- और-वह-फेरेगा  
[H0935](#) [H6435](#) [H0001](#) [H0001](#) [H7725](#)

וְהִכִּיתִי אֶת- הָאָרֶץ הַרְּם:  
 और-मैं-माँऊँ को- पृथ्वी शप-से  
[H0776](#) [H0853](#) [H5221](#)

एलियाह माता—पिता को अपने बच्चों के समीप होने में सहायता करेगा। यह अवश्य घटित होगा, या मैं (परमेश्वर) आऊँगा और तुम्हारे देश को पूरी तरह नष्ट कर दूँगा!”